



January 19, 2024

To,
BSE Limited
(BSE: 542726)

National Stock Exchange of India Limited
(NSE: INDIAMART)

Subject: Intimation of Publication of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the advertisements published in the following newspapers on January 19, 2024 with respect to Audited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023:

- Mint (English Language National Daily Newspaper – All India); and
- Hindustan (Hindi Language Daily Newspaper – Delhi).


The copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website at <https://investor.indiamart.com/CorporateAnnouncements.aspx>

Kindly take the same on your records.

Yours faithfully,
For IndiaMART InterMESH Limited

(Manoj Bhargava)
Group General Counsel,
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: F5164

Encl: As above



indiamart
IndiaMART InterMESH Limited

CIN: L74899DL1999PLC101534
Regd. office - 1st Floor, 29-Daryaganj, Netaji Subhash Marg, Delhi-110002, India
Phone : (+91) (11) 3027 2100, E-mail : cs@indiamart.com, Website : www.indiamart.com

Extract of Statement of Audited Consolidated Financials Results for the
quarter and nine months period ended December 31, 2023

(INR Million except per share data)

Particulars	Quarter ended			Nine Months ended			Year ended March 31, 2023
	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023	
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	
1. Total Income	3,470	3,293	3,536	10,155	8,664	11,659	
2. Income from operations	3,053	2,947	2,514	8,821	7,166	9,854	
3. Net Profit for the period (before Tax, but after share of associate)	1,096	933	1,522	3,153	2,956	3,713	
4. Net Profit for the period after tax	819	694	1,128	2,344	2,279	2,838	
5. Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	806	703	1,141	2,339	2,332	2,883	
6. Equity Share Capital	599	599	306	599	306	306	
7. Other equity (excluding revaluation reserves, if any)	-	-	-	-	-	20,279	
8. Basic and diluted earnings per share (Face Value of INR 10 each) (In INR.)							
Basic EPS	13.66 (Not annualised)	11.36 (Not annualised)	18.46 (Not annualised)	38.60 (Not annualised)	37.33 (Not annualised)	46.48 (Annualised)	
Diluted EPS	13.63 (Not annualised)	11.34 (Not annualised)	18.45 (Not annualised)	38.51 (Not annualised)	37.20 (Not annualised)	46.32 (Annualised)	


Notes:
1. The above consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
2. The above information is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results filed by the Company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.indiamart.com.
3. During the period ended December 31, 2023, the Company has issued and allotted 30,614,574 fully paid up Bonus Equity shares of INR 10 each on June 22, 2023 in the ratio of 1:1 (i.e. 1 Bonus Equity shares for every 1 existing equity share of the Company) to the shareholders who held shares on June 21, 2023 i.e. Record date. Considering the bonus issue, earnings per share has also been adjusted for all the previous periods/year presented, in accordance with Ind AS 33, Earnings per share.
4. The Board of Directors at its meeting held on July 20, 2023, approved a proposal to buy-back upto 12,50,000 equity shares of the Company for an aggregate amount not exceeding INR 5,000 Million, being 2.04% of the total paid up equity share capital at INR 4,000 per equity share. A Letter of Offer was made to all eligible shareholders. The Company bought back 12,50,000 equity shares out of the shares that were tendered by eligible shareholders and extinguished the equity shares on September 25, 2023. Capital redemption reserve was created to the extent of share capital extinguished of INR 12.50 Million. The buyback results in a cash outflow of INR 6,198.84 Million (including transaction costs of INR 36.95 Million and tax on buyback of INR 1,161.89 Million). The Company funded the buyback from its free reserves including Securities Premium as explained in Section 68 of the Companies Act, 2013.
5. The summary of the audited standalone financial results of the Company for the quarter and nine months period ended December 31, 2023 is given below:-

(Amount in INR Million)

Particulars	Quarter ended			Six Months ended			Year ended March 31, 2023
	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023	
	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	
Total Income	3,300	3,131	2,873	9,644	7,639	10,517	
Income from operations	2,914	2,807	2,402	8,397	6,826	9,388	
Net Profit before tax	1,192	1,068	1,102	3,500	2,588	3,453	
Net Profit after tax	916	829	816	2,698	2,047	2,722	

For and on behalf of the Board of Directors
IndiaMART InterMESH Limited
Sd/-
Dinesh Chandra Agarwal
(Managing Director and Chief Executive Officer)

Place : Noida
Date : January 18, 2024



NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
Administrative Building, Sector-6, Noida G.B. Nagar, (U.P)
Website : www.noidaauthorityonline.in

E-TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from eligible contractors / firms for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened / downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website: www.noidaauthorityonline.in & <https://etender.up.nic.in>. Please ensure to see these websites for any changes/amendments & corrigendum etc.

A) Fresh-Tender Work:

Sr. No.	Job No.	Name of the Work	Tender Amount (Rs. Lacs)
1.	28/DGM/SM(WC-3)/2023-24	M/o Drain (C/o RCC drain and culvert on 75.00 mtr. wide road near SBI Bank 30.00 mtr. wide road to Vedanta Hospital Sector-50), Noida.	164.77
2.	34/DGM/SM(WC-1)/2023-24	M/o Road (Replacing Old damaged Interlocking tile and laying at new tiles in W-Block and Haridarshan Chowki in Sector-11), Noida.	137.17
3.	33/DGM/SM(WC-4)/ET/2023-24	Widening of road (Widening of 18.00 mtr. wide road between Block J, F, G and D, E, C Sector-63), Noida.	154.41
4.	57/DGM/SM(WC-7)/ET/2023-24	Strengthening of road (Interlocking tile work on service road from Subros to Parag Dairy on 60.00 mtr. wide Main road, Phase-II), Noida.	130.04
5.	34/DGM/SM(WC-3)/2023-24	Strengthening of Road (Resurfacing on Internal Roads in A, B & C Block, Sector-47), Noida.	154.15
6.	35/DGM/SM(WC-3)/2023-24	M/o Road (P/L Interlocking tile, Refixing of tile & Drain repair work in Block A and B Sector-50), Noida.	119.80
7.	36/DGM/SM(WC-3)/2023-24	M/o Drain (Repairing & Covering of Drain and Refixing or laying of tile on 18.00 mtr. & 12.00 mtr. Road in Block-B, Sector-46), Noida.	164.57
8.	37/DGM/SM(WC-3)/2023-24	M/o Drain (Repairing of Drain and Refixing of tile on 09.00 mtr. Road in Block-B, Sector-46), Noida.	112.58
9.	38/DGM/SM(WC-3)/2023-24	M/o Road (P/L Interlocking tiles on Patri of service road from Sector-107, 47 T Point to Sector-96, 97, 98 T Point on Hazipur road), Noida.	125.78
10.	62/DGM/SM(WC-2)/2023-24	M/o Building (Repair of plaster, drain, Kota Stone, C.C., Painting work & other misc. work for Godawari Market, Sector-37), Noida.	117.19
11.	63/DGM/SM(WC-2)/2023-24	M/o Road (Repair, plaster & fixing of S.F.R.C. for drain, fixing M.S. Grill & Painting work for footpath and other misc. work along sector-28, 29, 30 on DPS School road from MP-a to sector-37 T-Point), Noida.	154.42
12.	64/DGM/SM(WC-2)/2023-24	Strengthening of road (P/L DBM & BC work, repaired & painting work for central verge on sector-19, A and B Block from MP-I road to Parallel road), Noida.	159.02
13.	65/DGM/SM(WC-2)/2023-24	M/o Drain (R/o brick work, plaster and culvert in different location block A, B & C sector-19), Noida.	156.77

The above tenders can be uploaded by dated **01.02.2024** up to **5.00 PM**. Pre-qualification shall be opened/downloaded on dated **02.02.2024** at **11.00 AM**.


A) Re-Tender Work:

Sr. No.	Job No.	Name of the Work	Tender Amount (Rs. Lacs)
14.	49/DGM/SM(WC-2)/2023-24	M/o Road (Repair and Raising of drain & Fixing of M.S. Jaal, SFRC cover for drain, CC for gali and other Misc. work in Ward No. 11, 12, 12A, 14 & 14A, Sector-37), Noida	140.80
15.	47/DGM/SM(WC-10)/ET/2023-24	M/o & D/o Expressway (C/o & M/o old Underpass, Approach road and Expressway service road in front of Advant tower, Sector-142 side), Noida.	193.00

The above tenders can be uploaded by dated **29.01.2024** up to **5.00 PM**. Pre-qualification shall be opened/downloaded on dated **30.01.2024** at **11.00 AM**.

Dy. General Manager (Civil)
NOIDA

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA



JINDAL STAINLESS

EXTRACTS OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2023

(₹ in crores except per share data)

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended			For the nine months ended		
		31 December 2023	30 September 2023	31 December 2022	31 December 2023	31 December 2022	31 March 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited (Restated)	Unaudited	Unaudited (Restated)	Audited
1	Total income from operations	9,127.45	9,797.04	9,062.50	29,108.45	25,931.95	35,697.03
2	EBITDA *	1,246.17	1,230.57	868.30	3,669.11	2,442.16	3,586.09
3	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	916.83	892.33	684.96	2,789.77	1,816.73	2,773.97
4	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	916.83	993.14	684.96	2,890.58	1,816.73	2,773.97
5	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	691.22	764.03	512.62	2,192.83	1,367.54	2,083.83
6	Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	693.56	765.23	518.86	2,193.83	1,377.51	2,077.44
7	Paid up equity share capital (face value of ₹2/- each)	164.69	164.69	105.10	164.69	105.10	164.69
8	Other equity \$	13,691.95	13,079.42	11,147.24	13,691.95	11,147.24	11,766.49
9	Securities premium account	4,102.26	4,102.26	1,236.03	4,102.26	1,236.03	4,102.26
10	Net worth	13,856.64	13,244.11	11,252.34	13,856.64	11,252.34	11,931.18
11	Paid up debt capital #	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00	474.00
12	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-	-	-	-
13	Debt equity ratio	0.46	0.43	0.35	0.46	0.35	0.32
14	Earning per share (EPS) (face value of ₹2/- each)						
	a) Basic	8.41	9.40	6.04	26.87	16.38	25.68
	b) Diluted	8.41	9.40	6.04	26.87	16.38	25.68
	(EPS for the period not annualised)						
15	Capital redemption reserve	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
16	Debt redemption reserve #	-	-	-	-	-	-
17	Debt service coverage ratio	6.52	5.36	7.32	6.73	7.58	8.63
18	Interest service coverage ratio	8.81	8.11	12.00	9.43	10.47	11.44

* EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation & amortization and other income
\$ including share capital suspense account in 31 December 2022.
Listed debt

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months/yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)]. The full format of the standalone and consolidated quarterly/nine months/yearly financial results along with other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) are available on the Company's website: (www.jindalstainless.com) and on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).
2. Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation-47(1)(b) of SEBI (LODR) :

(₹ in crores)

Particulars	For the quarter ended			For the nine months ended			For the year ended 31 March 2023
	31 December 2023	30 September 2023	31 December 2022	31 December 2023	31 December 2022	31 March 2023	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited (Restated)	Unaudited	Unaudited (Restated)	Audited	
Total income from operations	9,087.57	9,720.35	9,001.30	28,835.26	25,586.04	35,030.35	
EBITDA *	1,020.80	1,069.80	947.29	3,208.42	2,469.93	3,566.93	
Profit before tax (before exceptional items)	974.94	822.01	740.30	2,692.24	1,817.53	2,703.52	
Profit before tax (after exceptional items)	974.94	822.01	740.30	2,692.24	1,817.53	2,703.52	
Profit after tax	779.27	609.40	551.98	2,054.33	1,354.85	2,014.00	

* EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation & amortization and other income

By Order of the Board of Directors
Jindal Stainless Limited
Anurag Mantri
Executive Director & Group CFO

Place: New Delhi
Date: 18 January 2024

(CIN: L26922HR1980PLC010901)
Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125 005 (Haryana) | Ph. No.: (01662) 222471-83 | Fax No.: (01662) 220499
Email Id. for Investors: investorcare@jindalstainless.com | Website: www.jindalstainless.com

CENTRAL RAILWAY

E-TENDER NOTICE No. NGP/L/2024/7/02R32 Date-17.01.2024

Name of work : Development of cloud based non traction energy data management system for integration of electrical assets with IR-NIYANTRAC web portal led by CRIS for Nagpur Division.


Tender cost of work : Rs. 1,57,86,825/-.

Bid security : Rs. 2,28,900/-.

Cost of tender form : Rs. Nil. **Completion period :** 12 months. **The offer will remain open for 60 days.** **Date & time for submission of tender :** 09.02.2024 up to 11.00 Hrs. **Date & time of opening of tender :** 09.02.2024 up to 11.15 Hrs. Details on Railway website: www.ireps.gov.in

Sr. Divisional Electrical Engineer (Genl.)
SUN/402

DOWNLOAD UTS APP FOR TICKETS



NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LTD.
(A JV of Govt. of India and participating State Governments)

PUBLIC NOTICE

It is notified for the information of the general public that **Namo Bharat Train services shall be suspended on 20.01.2024 & 21.01.2024** owing to system upgradation and extension of services beyond priority section up to Meerut South RRTS Station. Inconvenience is regretted.

Sd./- GGM/Operations

Rajasthan State Beverages Corporation Limited
(A Government of Rajasthan Undertaking) Plot No. 2, ColERA Bhaman, (Fourth & Fifth Floor) Opp. Ananya Bhaman, Bhaman Southwest Area, Jaipur 302004, Tel: (+91)-2744239, Fax: (+91)-2744237, Email - e-rcb@rajasthan.gov.in, CIN: 01511920055020394

No. :- 10705 Dated :- 16/01/2024

Notice Inviting e-Bid

e-Bids for Loading and Unloading work of IMFL/FMFL/BEER cases for District Jaipur (4 Depots) and District Rajasamand (1 Depot) of RSBC for the Year 2023-24 and 2024-25 are invited from interested bidders up to 6.00 PM on 07/02/2024. The bid document may be downloaded from <https://proc.rajasthan.gov.in> & <https://sppp.rajasthan.gov.in> & <https://excise.rajasthan.gov.in> UBN No.- BCL23245LOB00057 & 00058 Raj_Samwad/C/23/1213 Executive Director



MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
HORTICULTURE DEPARTMENT (HQ) I
E-1 BLOCK, 16th FLOOR, DR. S.P.M. CIVIC CENTRE
J.L. NEHRU MARG, NEW DELHI- 110002

NOTICE INVITING TENDER

Online open tenders are invited under single stage-Two Bid system from experienced and financially sound Indian Manufacturer or its Authorized Dealer/Distributor of Children Play Equipments for Rate, Contract of Supply & Installation of Children Play Equipments in MCD as per Tender No. 2024_MCD_181946_1 issued vide No. DDH/(HQ)/MCD/2023-24/ D-1752/NIT No.40 Dated 16.01.2024 R.C Amt Rs. 5Cr. Tender cost Rs. 2360/- EMD Rs. 10 Lac. R.C. Period 12 Months. Last date of Bid Submission is 31.01.2024 upto 5.00 PM. Opening of Technical Bids 01.02.2024 at 11 AM. For e-tendering Bidding Documents with detailed terms & conditions can be downloaded from the website- <https://etenders.gov.in/procure/app> OR MCD website- www.mcdonline.nic.in For online tender the helpdesk/No. are 011-23227413 & 011-23227414 or mail to mcd-ithelpdesk@mod.nic.in All details of Revisions, Clarifications, Corrigendum, Addendum, Time Extension etc., if any, in respect of this tender will be uploaded on MCD website only & will not be published in newspaper(s) separately. Interested Bidders should regularly visit the website to keep themselves regularly updated for the tender.

Dy. Director(Hort./HQ-II)
R.O. No.72/DPI/MCD/2023-24 Phone: 011-23226613

Chart a course to clarity!



Data rich, visual reporting with
Mint Plain Facts

Read only on **mint**



Greater Noida Industrial Development Authority
Plot No: 01, Knowledge Park IV, Greater Noida City, Gautam Budh Nagar - 201308, Uttar Pradesh
www.greaternoidaauthority.in, E-mail: authority@gnida.in

Ref. No.: Inch-DD(Hort.)/23-24/2996 Date: 16.01.2024

E-TENDER NOTICE

License Space for Nurseries in Greater Noida
(Term - 5 years with provision of renewal for additional 3 years based on performance in 1-year increments)

Detailed RFP document is available on the E-Procurement Portal of Government of UP (<https://etender.up.nic.in>) from 19.01.2024. The bid start date will be 19.01.2024. The pre-bid conference will be held on 29.01.2024 (1300 hours) on Zoom (Meeting ID: 860 4157 0380; Passcode: 123456)

List of Nurseries available on License

Sr.	Location of the Nursery	Area (in sqm)	Reserved Price (exclusive of GST) (INR per sqm per year)
1.	G-1, Alpha-I	15,769.65	41.72
2.	G-4, Alpha-II	237,58.92	41.72
3.	G-9, Beta-I	7,958.19	41.72

Interested Applicants are required to apply online on the E-procurement website on or before 08.02.2024, 05:00 pm (IST). The bid opening will be on 12.02.2024, 11:00 am (IST). In case of any queries, the Bidders are invited to contact Senior Manager (Horticulture), GNIDA. Email: ajayrai@gnida.in; Phone: +91 1202336015 General Manager (Horticulture)

Follow Us on  / OfficialGNIDA

